

# Youtube से पढ़ाई के 10 महत्वपूर्ण चैनल्स

(By Baljeet Yadav)

कोरोना के कारण आज हम घरों में बंद हैं व बच्चों के स्कूल भी बंद हो चुके हैं। इससे बच्चों की शिक्षा पर काफी असर पड़ा है। कोरोना के चलते ना केवल बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर अपितु मानसिक स्तर भी काफी प्रभाव पड़ा है। आज ज्यादातर बच्चे घरों में बंद हैं और माँ बाप भी घर पर हैं ये दोनों के लिए ही एक अलग चुनौती लेकर आए हैं।

गावों में बच्चों के लिए और भी मुश्किलें हैं एक तो यहाँ बच्चों के पास पढ़ने का साधन नहीं रह गया है जिससे इन बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह रुक चुकी है। दूसरा गावों के बच्चों को बाहर खेलने की आदत होती है जो कोरोना के चलते उनको बाहर खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। इन सबके साथ सबसे ज्यादा दिक्कत उन घरों में है जहाँ पिता को दारु की लत है। Lockdown के चलते घरों में बच्चों व महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ गए हैं।

ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को घर पर रहते हुए पढ़ाई में व मजेदार गतिविधियों में शामिल किया जाए। इस लेख के जरिये हम यहाँ Youtube पर उपलब्ध ऐसे चैनल्स का नाम बता रहे हैं जहाँ बच्चों के लिए सीखने की बहुत सारी सामग्री है तो आइए इन चैनल्स के बारे में जानते हैं।

## 1. Arvind Gupta -

(<https://www.youtube.com/user/arvindguptatoys/>)

कबाड़ के जुगाड़ से खिलौने बनाकर बच्चों को साइंस पढ़ाने वाले अरविन्द गुप्ता जी का भारत के गिने चुने शिक्षाविद में नाम आता है और 2018 में उनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया। अरविन्द गुप्ता आई.आई.टी कानपूर के छात्र है तथा गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति है। वे पिछले पच्चीस सालों से बच्चों को विज्ञान सीखा रहे हैं। वे अध्यापक है, इंजीनियर है, खिलौने बनाते है, किताबों से प्रेम करते है और अनुवादक है। उन्होंने 150 से अधिक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है।

उनकी वेबसाइट भी है <http://www.arvindguptatoys.com/> . यहाँ आपको बच्चों से संबंधित अनेक प्रकार की किताबें फ्री में मिल जाएंगी। इस वेबसाइट के बारे में हर टीचर को और हर student को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ जरूर है।

## 2. TicTacLearn Hindi

(<https://www.youtube.com/channel/UCkxfbAky2v0yXuKWOKCDy1w/playlists>)

TicTacLearn एक नया चैनल है जो Central Square Foundation द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया। यहाँ पाठ्यक्रम से संबंधित 12000 videos अलग-2 भाषाओं में उपलब्ध है। यहाँ पहली कक्षा से लेकर दशवी कक्षा के लिए सामग्री है। ये सामग्री DIKSHA APP पर भी उपलब्ध है।

## 3. Avanti Gurukul

(<https://www.youtube.com/channel/UC-V8QqGWtHmTtsoMGVLk1ZA>)

Avanti ने 8 वी से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज शुरू की है। जिसके लिए <https://avanti.in/live/> Avanti की इस वेबसाइट पर फ्री में

पंजीकरण (registration) किया जा सकता है। क्लासेज हिंदी में होती है हालाँकि पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम का है।

यहाँ आप JEE, NEET एवं Boards की तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पहल है Avanti Gurukul द्वारा।

#### 4. MocomiKids

(<https://www.youtube.com/channel/UCFKrbHKFDXN2xeDYKPKQ5UiQ>)

MocomiKids पर हर उम्र के बच्चों के लिए videos हैं। यहाँ आप रोमांचक कहानियाँ, सामान्य ज्ञान, चित्र बनाना सीखना और विज्ञान से जुड़े ढेरों videos देख सकते हैं। 30 लाख से ज्यादा subscribers के साथ ये चैनल बच्चों में बहुत फेमस है।

#### 5. Crazy GkTrick

(<https://www.youtube.com/channel/UCII28Ab-H-3LYIPw4hhQexA/featured>)

Crazy GkTrick बच्चे हो या बड़े सबके लिए सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता पर हिंदी का काफी अच्छा चैनल है। लगभग 40 लाख subscribers को ये चैनल अनेक विषयों पर videos उपलब्ध कराता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चैनल आपके लिए काफी उपयोगी होगा।

#### 6. LearnoHub

(<https://www.youtube.com/user/ExamFearVideos/featured>)

पहले ये चैनल ExamFear के नाम से हुआ करता था। अभी इसका नाम LearnoHub हो गया है। यहाँ आपको हिंदी में 6ठी से लेकर 12वी तक के विषयों पर videos मिलेंगे। यहाँ बच्चों को इंग्लिश, साइंस एवं मैथ्स के विषयों को काफी आसान तरीके से समझाया गया है।

## 7. 7activestudio

(<https://www.youtube.com/user/7activestudio/featured>)

इस चैनल पर स्कूल पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों पर 3D में सामग्री उपलब्ध है। यहाँ इंग्लिश में समझाया गया है लेकिन ये इतना मजेदार है कि हर बच्चे को ये चैनल जरूर देखना चाहिए। इससे बच्चों में जिज्ञासा पैदा होगी एवं हिंदी बैकग्राउंड के बच्चों को भी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर बच्चे की इंग्लिश ठीक ठाक है तो ये चैनल जरूर दिखाए।

## 8. Khan Academy India

(<https://www.youtube.com/channel/UCU0kWLABhVGxXarmE3b8rHg/playlists>)

आप में से ज्यादातर लोगो ने इसके बारे में सुन ही रखा होगा। ये सचमुच सबसे बेहतरीन चैनल है। खान अकादमी ने अलग अलग भाषाओं में लगभग सभी विषयों पर बहुत ही बेहतरीन videos बनाए हैं। Khan Academy India में खासकर छोटी से लेकर बाहरवी तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छी सामग्री बनाई है जो पाठ्यक्रम पर आधारित भी है।

## 9. Youtube Kids

(<https://www.youtubekids.com/>)

Youtube ने youtubekids के नाम से एक नया मंच शुरू किया है जिसकी वेबसाइट और अप्प दोनों हैं। Youtubekids पर बच्चों को इंग्लिश, मैथ्स, DIY के अच्छी quality के videos मिल जाएँगे। इस वेबसाइट के जरिये बच्चों को number blocks, phonics, etc. सिखाना काफी मजेदार रहेगा। <https://learnathome.withyoutube.com/videos/> ये वेबसाइट parents के लिए है वो बच्चों की उम्र के अनुसार सामग्री चुन सकते हैं और बच्चों को घर पर पढ़ा सकते हैं।

## 10. Zee Kids

(<https://www.youtube.com/user/zeeqindia/>)

ये चैनल हर उम्र के बच्चों के लिए fun learning के साथ साथ मनोरंजन के बहुत सारे videos उपलब्ध है । यहाँ बच्चों के लिए घर पर खुद से कुछ करने के लिए DIY (Do It Yourself) videos दिए हुए है । अगर बच्चे ऑनलाइन कुछ देखने की जिद कर रहे हो तो ये चैनल खोलकर आप उन्हें देख सकते है।

उम्मीद है आपको ये लिस्ट पसंद आएगी । अगर आपको इससे संबंधित और चैनल्स के बारे में जानकारी है तो कृपया कमेंट करे । मैं इस पोस्ट को हर अपडेट कर दूंगा । इससे संबंधित कोई भी चर्चा करनी हो तो आप मुझे [baljeet.varitra@gmail.com](mailto:baljeet.varitra@gmail.com) पर contact कर सकते है ।

हैप्पी लर्निंग